



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, सोमवार, 19 फरवरी, 2024

माघ 30, 1945 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या 263/वि०स०/संसदीय/38(सं)-2024

लखनऊ, 10 फरवरी, 2024

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2024, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 10 फरवरी, 2024 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2024

31 मार्च, 2025 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2024 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम

2-ऐसे विविध परिष्य चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो 2024-2025 के लिए अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 770127,66,14,000 रुपये (रुपये सात लाख सत्तर हजार एक सौ सत्ताईस करोड़ छियासठ लाख चौदह हजार मात्र) रुपये का निकाला जाना होता है, अधिक न हो।

3-इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची				
(धारायें 2 और 3 देखें)				
1	2	3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		(लाख रुपयों में)		
क्रम संख्या		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
01	आबकारी विभाग	राजस्व : 49455.11	--	49455.11
		पूंजी : 250.00	--	250.00
02	आवास विभाग	राजस्व : 44952.04	--	44952.04
		पूंजी : 670915.10	--	670915.10
03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व : 241577.13	6.00	241583.13
		पूंजी : 59418.32	--	59418.32
04	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व : 8222.20	--	8222.20
		पूंजी : 260.00	--	260.00
05	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	राजस्व : 16294.82	--	16294.82
06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व : 57970.16	--	57970.16
		पूंजी : 36331.00	--	36331.00
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व : 993415.13	--	993415.13
		पूंजी : 1196144.26	--	1196144.26
08	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	राजस्व : 26800.45	--	26800.45
		पूंजी : 3085.95	--	3085.95
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व : 2985420.09	251859.23	3237279.32
		पूंजी : 1976910.37	440583.96	2417494.33
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)	राजस्व : 181661.18	337.71	181998.89
		पूंजी : 3458.62	--	3458.62
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व : 800524.74	20.05	800544.79
		पूंजी : 77418.70	--	77418.70
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	राजस्व : 45027.93	--	45027.93

अनुसूची					
--(क्रमशः):					
1	2	3			
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक			
		(लाख समयों में)			
क्रम संख्या		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग	
		पूँजी :	37.50	--	37.50
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व :	607388.94	25.00	607413.94
		पूँजी :	1475364.18	--	1475364.18
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व :	1680415.36	--	1680415.36
		पूँजी :	50135.00	--	50135.00
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व :	313265.72	13.79	313279.51
		पूँजी :	32847.22	--	32847.22
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व :	23252.45	--	23252.45
		पूँजी :	14450.00	--	14450.00
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व :	48881.88	9.50	48891.38
		पूँजी :	27800.00	--	27800.00
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व :	125357.21	1203.00	126560.21
		पूँजी :	17316.87	4300.00	21616.87
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	1763.37	--	1763.37
		पूँजी :	1943.00	--	1943.00
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व :	13511.25	13597.18	27108.43
		पूँजी :	500.00	500.65	1000.65
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व :	290721.97	6.00	290727.97
		पूँजी :	1935587.09	0.50	1935587.59
22	खेल विभाग	राजस्व :	34647.94	--	34647.94
		पूँजी :	63587.97	--	63587.97
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व :	33630.25	2.00	33632.25
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व :	7579.37	--	7579.37

अनुसूची					
--(क्रमशः):					
1	2	3			
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक			
		(लाख रुपयों में)			
क्रम संख्या		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग	
		पूँजी :	145609.00	--	145609.00
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व :	138657.91	20.00	138677.91
		पूँजी :	136621.12	--	136621.12
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व :	3429507.03	500.00	3430007.03
		पूँजी :	525069.91	--	525069.91
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व :	3003.70	--	3003.70
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	47378.38	--	47378.38
		पूँजी :	575.00	--	575.00
*29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व :	--	2888.97	2888.97
		पूँजी :	--	50.01	50.01
30	गोपन विभाग(राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	962.48	--	962.48
		पूँजी :	0.01	--	0.01
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व :	727440.87	--	727440.87
		पूँजी :	401329.00	--	401329.00
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	1067624.60	20.00	1067644.60
		पूँजी :	109107.45	--	109107.45
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व :	191023.07	--	191023.07
		पूँजी :	6877.05	--	6877.05
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	70626.85	--	70626.85
		पूँजी :	4140.00	--	4140.00
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व :	1080471.17	40.00	1080511.17
		पूँजी :	238600.83	--	238600.83
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व :	125745.38	2.00	125747.38
*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या					

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2	3			
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक			
		(लाख स्परों में)			
क्रम संख्या		विधान सभा द्वारा	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग	
		स्वीकृत			
	पूँजी :	11015.00	--	11015.00	
37	नगर विकास विभाग	राजस्व :	2127636.81	--	2127636.81
	पूँजी :	275100.00	--	275100.00	
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व :	13815.71	--	13815.71
	पूँजी :	263644.00	--	263644.00	
39	भाषा विभाग	राजस्व :	5331.67	--	5331.67
40	नियोजन विभाग	राजस्व :	37473.83	--	37473.83
	पूँजी :	350525.50	--	350525.50	
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व :	81460.27	--	81460.27
	पूँजी :	1600.01	--	1600.01	
42	न्याय विभाग	राजस्व :	436371.08	97553.85	533924.93
	पूँजी :	348230.00	750.00	348980.00	
43	परिवहन विभाग	राजस्व :	61479.81	0.01	61479.82
	पूँजी :	70681.37	--	70681.37	
44	पर्यटन विभाग	राजस्व :	21622.57	--	21622.57
	पूँजी :	168007.00	--	168007.00	
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व :	1557.32	--	1557.32
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व :	3052.37	--	3052.37
	पूँजी :	69.20	--	69.20	
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	91176.15	--	91176.15
	पूँजी :	21588.04	--	21588.04	
48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व :	142483.34	1.80	142485.14
	पूँजी :	54671.64	--	54671.64	

अनुसूची				
--(क्रमशः):				
1	2	3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		(लाख रुपयों में)		
क्रम संख्या		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व : 1252489.70	--	1252489.70
		पूंजी : 72821.20	--	72821.20
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व : 140718.49	55.00	140773.49
		पूंजी : 12445.99	--	12445.99
51	राजस्व विभाग (द्वैती विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्व : 400050.53	23000.00	423050.53
		पूंजी : 63606.01	--	63606.01
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व : 527033.88	27.00	527060.88
		पूंजी : 1021.10	7.88	1028.98
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व : 109.90	--	109.90
54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व : 348595.93	4.00	348599.93
		पूंजी : 100.00	--	100.00
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्व : 16535.00	762.00	17297.00
		पूंजी : 14493.60	581.00	15074.60
57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	राजस्व : 16000.00	--	16000.00
		पूंजी : 412433.50	--	412433.50
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	राजस्व : 967320.29	12.18	967332.47
		पूंजी : 1919398.00	3000.00	1922398.00
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व : 39181.17	--	39181.17
		पूंजी : 63063.05	--	63063.05
60	वन विभाग	राजस्व : 99109.12	13126.71	112235.83
		पूंजी : 102469.13	--	102469.13
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व : 2521101.40	5309349.58	7830450.98
		पूंजी : 16500.00	3535724.95	3552224.95

अनुसूची				
--(क्रमशः):				
1	2	3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		(लाख रुपयों में)		
क्रम संख्या		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशने)	राजस्व : 7820860.31	91.31	7820951.62
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व : 35243.60	--	35243.60
		पूंजी : 272.00	--	272.00
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)	राजस्व : 42023.91	--	42023.91
		पूंजी : 10942.04	--	10942.04
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व : 4277.07	22797.22	27074.29
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व : 8435.40	120.55	8555.95
		पूंजी : 1343.64	--	1343.64
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व : 28427.04	399.14	28826.18
		पूंजी : 6301.45	55.00	6356.45
69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	राजस्व : 151745.60	--	151745.60
		पूंजी : 66125.01	--	66125.01
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व : 97087.91	--	97087.91
		पूंजी : 11475.00	--	11475.00
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व : 7766795.77	--	7766795.77
		पूंजी : 359521.71	--	359521.71
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व : 1656589.03	--	1656589.03
		पूंजी : 107289.01	--	107289.01
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व : 437388.08	--	437388.08
		पूंजी : 53801.97	--	53801.97
74	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	राजस्व : 297726.31	--	297726.31
		पूंजी : 5765.00	--	5765.00
75	शिक्षा विभाग(राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व : 46423.18	--	46423.18

अनुसूची					
--(क्रमशः):					
1	2	3			
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक			
		(लाख रुपयों में)			
क्रम संख्या		विधान सभा द्वारा	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग	
		स्वीकृत			
	पूँजी :	34397.30	--	34397.30	
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व :	60935.62	--	60935.62
	पूँजी :	3602.00	--	3602.00	
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व :	16289.82	--	16289.82
	पूँजी :	103.00	--	103.00	
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व :	243131.37	--	243131.37
	पूँजी :	520.20	--	520.20	
79	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व :	423777.59	--	423777.59
	पूँजी :	16724.77	--	16724.77	
80	समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व :	1030559.04	--	1030559.04
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व :	87029.94	--	87029.94
	पूँजी :	76796.79	--	76796.79	
82	सतर्कता विभाग	राजस्व :	8429.85	1429.55	9859.40
	पूँजी :	535.50	26.00	561.50	
83	समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	राजस्व :	1731171.46	--	1731171.46
	पूँजी :	1634548.54	--	1634548.54	
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व :	3646.41	--	3646.41
	पूँजी :	88400.00	--	88400.00	
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व :	1007.86	--	1007.86
86	सूचना विभाग	राजस्व :	97402.57	--	97402.57
	पूँजी :	2150.00	--	2150.00	
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व :	7278.27	--	7278.27

अनुसूची

(समाप्त):

1	2	3			
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक			
		(लाख स्पर्यों में)			
क्रम		विधान सभा द्वारा	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग	
संख्या		स्वीकृत			
	पूँजी :	1152.00	--	1152.00	
89	राज्य कर विभाग	राजस्व :	121982.55	10.50	121993.05
	पूँजी :	8595.00	--	8595.00	
91	स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग	राजस्व :	359220.69	0.01	359220.70
	पूँजी :	8100.00	--	8100.00	
92	संस्कृति विभाग	राजस्व :	26604.41	0.05	26604.46
	पूँजी :	25339.50	--	25339.50	
93	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग	राजस्व :	138806.80	--	138806.80
	पूँजी :	1617091.00	--	1617091.00	
94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व :	459645.21	--	459645.21
	पूँजी :	939578.68	500.00	940078.68	
95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	675873.19	50.00	675923.19
	योग :	राजस्व :	48751700.33	5739340.89	54491041.22
		पूँजी :	18535644.97	3986079.95	22521724.92
	महायोग :		67287345.30	9725420.84	77012766.14

उद्देश्य और कारण

संविधान का अनुच्छेद 204 इस बात की अपेक्षा करता है कि विधान सभा द्वारा अनुदानों की मांगें स्वीकृत किये जाने के बाद राज्य के विधान मण्डल में एक विनियोग विधेयक पुरःस्थापित किया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2024 को जो उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों तथा राज्य की समेकित निधि पर भारित व्यय के लिये अपेक्षित समस्त धनराशियों के विनियोग की व्यवस्था करता है, पुरःस्थापित किया जाता है।

सुरेश कुमार खन्ना

वित्त मंत्री।

आज्ञा से,

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-I

No. 125/XC-S-1-24-12 S-2024
Dated Lucknow, February 19, 2024

NOTIFICATION
MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Viniyog Vidheyak, 2024" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on February 10, 2024.

THE UTTAR PRADESH APPROPRIATION
BILL, 2024

A
BILL

to provide for authorising payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State to the services for the year ending on thirty-first day of March, 2025.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy fifth Year of the Republic of India as follows:—

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Appropriation Act, 2024.

Issue of Rs.
770127,66,14,000
out of the
Consolidated Fund
of Uttar Pradesh
for the year
2024-2025

2. From and out of the Consolidated Fund of the state of Uttar Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column 3 of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Rs. 770127,66,14,000 (Rs. Seven lakh seventy thousand one hundred twenty seven crore sixty six lakh fourteen thousand only) towards defraying the several charges which will come in course of payment during the year ending on the thirty-first day of March, 2025 in respect of the services and purposes specified in column-2 of the Schedule.

Appropriation

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of Uttar Pradesh by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the year ending on the thirty-first day of March, 2025.

SCHEDULE

(See Section 2 and 3)

1		2		3	
Grant/Serial	Services and purposes	Sums not exceeding			
		(In lakhs)			
		Voted by the Legislative	Charged on Consolidated	Total	
		Assembly	fund of the State		
01	Excise Department	Revenue :	49455.11	--	49455.11
		Capital :	250.00	--	250.00
02	Housing Department	Revenue :	44952.04	--	44952.04
		Capital :	670915.10	--	670915.10
03	Industries Department (Small Industry and Export Promotion)	Revenue :	241577.13	6.00	241583.13
		Capital :	59418.32	--	59418.32
04	Industries Department (Mines and Minerals)	Revenue :	8222.20	--	8222.20
		Capital :	260.00	--	260.00
05	Industries Department (Handloom and Village Industries)	Revenue :	16294.82	--	16294.82
06	Industries Department (Handloom Industry)	Revenue :	57970.16	--	57970.16
		Capital :	36331.00	--	36331.00
07	Industries Department (Heavy and Medium Industries)	Revenue :	993415.13	--	993415.13
		Capital :	1196144.26	--	1196144.26
08	Industries Department (Printing and Stationery)	Revenue :	26800.45	--	26800.45
		Capital :	3085.95	--	3085.95
09	Power Department	Revenue :	2985420.09	251859.23	3237279.32
		Capital :	1976910.37	440583.96	2417494.33
10	Agriculture and Other Allied Departments (Horticulture & Sericulture Development)	Revenue :	181661.18	337.71	181998.89
		Capital :	3458.62	--	3458.62
11	Agriculture and Other Allied Departments (Agriculture)	Revenue :	800524.74	20.05	800544.79
		Capital :	77418.70	--	77418.70

SCHEDULE

--(Contd):

1	2	3		
Grant/Serial	Services and purposes	Sums not exceeding		
		(In lakhs)		
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated fund of the State	Total
12	Agriculture & Other Allied Departments (Land Development & Water Resources)	Revenue : 45027.93	--	45027.93
		Capital : 37.50	--	37.50
13	Agriculture and Other Allied Departments (Rural Development)	Revenue : 607388.94	25.00	607413.94
		Capital : 1475364.18	--	1475364.18
14	Agriculture and Other Allied Departments (Panchayati Raj)	Revenue : 1680415.36	--	1680415.36
		Capital : 50135.00	--	50135.00
15	Agriculture and Other Allied Departments (Animal Husbandry)	Revenue : 313265.72	13.79	313279.51
		Capital : 32847.22	--	32847.22
16	Agriculture and Other Allied Departments (Dairy Development)	Revenue : 23252.45	--	23252.45
		Capital : 14450.00	--	14450.00
17	Agriculture and Other Allied Departments (Fisheries)	Revenue : 48881.88	9.50	48891.38
		Capital : 27800.00	--	27800.00
18	Agriculture and Other Allied Departments (Cooperative)	Revenue : 125357.21	1203.00	126560.21
		Capital : 17316.87	4300.00	21616.87
19	Personnel Department (Training and Other Expenditure)	Revenue : 1763.37	--	1763.37
		Capital : 1943.00	--	1943.00
20	Personnel Department(Public Service Commission)	Revenue : 13511.25	13597.18	27108.43
		Capital : 500.00	500.65	1000.65
21	Food and Civil Supplies Department	Revenue : 290721.97	6.00	290727.97
		Capital : 1935587.09	0.50	1935587.59

SCHEDULE

--(Contd):

1		2		3	
Grant/Serial	Services and purposes	Sums not exceeding			
		(In lakhs)			
		Voted by the Legislative	Charged on Consolidated	Total	
		Assembly	fund of the State		
22	Sports Department	Revenue :	34647.94	--	34647.94
		Capital :	63587.97	--	63587.97
23	Cane Development Department (Cane)	Revenue :	33630.25	2.00	33632.25
24	Cane Development Department (Sugar Industry)	Revenue :	7579.37	--	7579.37
		Capital :	145609.00	--	145609.00
25	Home Department (Jails)	Revenue :	138657.91	20.00	138677.91
		Capital :	136621.12	--	136621.12
26	Home Department (Police)	Revenue :	3429507.03	500.00	3430007.03
		Capital :	525069.91	--	525069.91
27	Home Department (Civil Defence)	Revenue :	3003.70	--	3003.70
28	Home Department (Political Pension and Other Expenditure)	Revenue :	47378.38	--	47378.38
		Capital :	575.00	--	575.00
*29	Confidential Department (Governor's Secretariat)	Revenue :	--	2888.97	2888.97
		Capital :	--	50.01	50.01
30	Confidential Department (Revenue Special Intelligence Directorate and Other Exp.)	Revenue :	962.48	--	962.48
		Capital :	0.01	--	0.01
31	Medical Department (Medical Education and Training)	Revenue :	727440.87	--	727440.87
		Capital :	401329.00	--	401329.00
32	Medical Department (Allopathy)	Revenue :	1067624.60	20.00	1067644.60
		Capital :	109107.45	--	109107.45
33	Medical Department (Ayurvedic and Unani)	Revenue :	191023.07	--	191023.07
		Capital :	6877.05	--	6877.05

*Serial number related to the charged appropriation

SCHEDULE

--(Contd):

1	2	3			
Grant/Serial	Services and purposes	Sums not exceeding			
		(In lakhs)			
		Voted by the Legislative	Charged on Consolidated	Total	
		Assembly	fund of the State		
34	Medical Department (Homoeopathy)	Revenue :	70626.85	--	70626.85
		Capital :	4140.00	--	4140.00
35	Medical Department (Family Welfare)	Revenue :	1080471.17	40.00	1080511.17
		Capital :	238600.83	--	238600.83
36	Medical Department (Public Health)	Revenue :	125745.38	2.00	125747.38
		Capital :	11015.00	--	11015.00
37	Urban Development Department	Revenue :	2127636.81	--	2127636.81
		Capital :	275100.00	--	275100.00
38	Civil Aviation Department	Revenue :	13815.71	--	13815.71
		Capital :	263644.00	--	263644.00
39	Language Department	Revenue :	5331.67	--	5331.67
40	Planning Department	Revenue :	37473.83	--	37473.83
		Capital :	350525.50	--	350525.50
41	Election Department	Revenue :	81460.27	--	81460.27
		Capital :	1600.01	--	1600.01
42	Judicial Department	Revenue :	436371.08	97553.85	533924.93
		Capital :	348230.00	750.00	348980.00
43	Transport Department	Revenue :	61479.81	0.01	61479.82
		Capital :	70681.37	--	70681.37
44	Tourism Department	Revenue :	21622.57	--	21622.57
		Capital :	168007.00	--	168007.00
45	Environment Department	Revenue :	1557.32	--	1557.32
46	Administrative Reforms Department	Revenue :	3052.37	--	3052.37
		Capital :	69.20	--	69.20
47	Technical Education Department	Revenue :	91176.15	--	91176.15

SCHEDULE

--(Contd):

1	2	3			
Grant/Serial	Services and purposes	Sums not exceeding			
		(In lakhs)			
		Voted by the Legislative	Charged on Consolidated	Total	
		Assembly	fund of the State		
		Capital :	21588.04	--	21588.04
48	Minorities Welfare Department	Revenue :	142483.34	1.80	142485.14
		Capital :	54671.64	--	54671.64
49	Women & Child Welfare Department	Revenue :	1252489.70	--	1252489.70
		Capital :	72821.20	--	72821.20
50	Revenue Department (District Administration)	Revenue :	140718.49	55.00	140773.49
		Capital :	12445.99	--	12445.99
51	Revenue Department (Relief on Account of Natural Calamities)	Revenue :	400050.53	23000.00	423050.53
		Capital :	63606.01	--	63606.01
52	Revenue Department (Board of Revenue and other expenditure)	Revenue :	527033.88	27.00	527060.88
		Capital :	1021.10	7.88	1028.98
53	National Integration Department	Revenue :	109.90	--	109.90
54	Public Works Department (Establishment)	Revenue :	348595.93	4.00	348599.93
		Capital :	100.00	--	100.00
55	Public Works Department (Buildings)	Revenue :	16535.00	762.00	17297.00
		Capital :	14493.60	581.00	15074.60
57	Public Works Department(Communication- Bridges)	Revenue :	16000.00	--	16000.00
		Capital :	412433.50	--	412433.50
58	Public Works Department (Communications-Roads)	Revenue :	967320.29	12.18	967332.47
		Capital :	1919398.00	3000.00	1922398.00
59	Public Works Department (Estate Directorate)	Revenue :	39181.17	--	39181.17
		Capital :	63063.05	--	63063.05

SCHEDULE

--(Contd):

1	2	3			
Grant/Serial	Services and purposes	Sums not exceeding			
		(In lakhs)			
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated fund of the State	Total	
60	Forest Department	Revenue :	99109.12	13126.71	112235.83
		Capital :	102469.13	--	102469.13
61	Finance Department (Debt Services and Other Expenditure)	Revenue :	2521101.40	5309349.58	7830450.98
		Capital :	16500.00	3535724.95	3552224.95
62	Finance Department (Superannuation Allowances and Pensions)	Revenue :	7820860.31	91.31	7820951.62
63	Finance Department (Treasury and Accounts Administration)	Revenue :	35243.60	--	35243.60
		Capital :	272.00	--	272.00
65	Finance Department (Audit, Small Savings etc.)	Revenue :	42023.91	--	42023.91
		Capital :	10942.04	--	10942.04
66	Finance Department (Group Insurance)	Revenue :	4277.07	22797.22	27074.29
67	Legislative Council Secretariat	Revenue :	8435.40	120.55	8555.95
		Capital :	1343.64	--	1343.64
68	Legislative Assembly Secretariat	Revenue :	28427.04	399.14	28826.18
		Capital :	6301.45	55.00	6356.45
69	Vocational Education Department	Revenue :	151745.60	--	151745.60
		Capital :	66125.01	--	66125.01
70	Science and Technology Department	Revenue :	97087.91	--	97087.91
		Capital :	11475.00	--	11475.00
71	Education Department (Primary Education)	Revenue :	7766795.77	--	7766795.77
		Capital :	359521.71	--	359521.71
72	Education Department (Secondary Education)	Revenue :	1656589.03	--	1656589.03
		Capital :	107289.01	--	107289.01

SCHEDULE

--(Contd):

1	2	3		
Grant/Serial	Services and purposes	Sums not exceeding		
		(In lakhs)		
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated fund of the State	Total
73	Education Department (Higher Education) Revenue :	437388.08	--	437388.08
	Capital :	53801.97	--	53801.97
74	Home Department (Home guards) Revenue :	297726.31	--	297726.31
	Capital :	5765.00	--	5765.00
75	Education Department (State Council of Education Research & Training) Revenue :	46423.18	--	46423.18
	Capital :	34397.30	--	34397.30
76	Labour Department (Labour Welfare) Revenue :	60935.62	--	60935.62
	Capital :	3602.00	--	3602.00
77	Labour Department (Employment) Revenue :	16289.82	--	16289.82
	Capital :	103.00	--	103.00
78	Secretariat Administration Department Revenue :	243131.37	--	243131.37
	Capital :	520.20	--	520.20
79	Social Welfare Department (Empowerment Of The Handicapped & Welfare Of Backward Classes) Revenue :	423777.59	--	423777.59
	Capital :	16724.77	--	16724.77
80	Social Welfare Department (Social Welfare & Welfare of Scheduled Castes) Revenue :	1030559.04	--	1030559.04
81	Social Welfare Department (Tribal Welfare) Revenue :	87029.94	--	87029.94
	Capital :	76796.79	--	76796.79
82	Vigilance Department Revenue :	8429.85	1429.55	9859.40
	Capital :	535.50	26.00	561.50
83	Social Welfare Department (Special Component Plan for Scheduled Castes) Revenue :	1731171.46	--	1731171.46
	Capital :	1634548.54	--	1634548.54
84	General Administration Department Revenue :	3646.41	--	3646.41

SCHEDULE

(Contld):

1		2		3	
Grant/Serial	Services and purposes	Sums not exceeding			
		(In lakhs)			
		Voted by the Legislative	Charged on Consolidated	Total	
		Assembly	fund of the State		
		Capital :	88400.00	--	88400.00
85	Public Enterprises Department	Revenue :	1007.86	--	1007.86
86	Information Department	Revenue :	97402.57	--	97402.57
		Capital :	2150.00	--	2150.00
87	Soldier's Welfare Department	Revenue :	7278.27	--	7278.27
		Capital :	1152.00	--	1152.00
89	State Tax Department	Revenue :	121982.55	10.50	121993.05
		Capital :	8595.00	--	8595.00
91	Stamps & Registration Department	Revenue :	359220.69	0.01	359220.70
		Capital :	8100.00	--	8100.00
92	Culture Department	Revenue :	26604.41	0.05	26604.46
		Capital :	25339.50	--	25339.50
93	Namami Gangey and Rural Water Supply Department	Revenue :	138806.80	--	138806.80
		Capital :	1617091.00	--	1617091.00
94	Irrigation Department (Works)	Revenue :	459645.21	--	459645.21
		Capital :	939578.68	500.00	940078.68
95	Irrigation Department (Establishment)	Revenue :	675873.19	50.00	675923.19
Total :		Revenue :	48751700.33	5739340.89	54491041.22
		Capital:	18535644.97	3986079.95	22521724.92
Grand Total :			67287345.30	9725420.84	77012766.14

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Article 204 of the Constitution, requires that an Appropriation Bill should be introduced in the State Legislature after the demands for Grants have been assented to by the Legislative Assembly.

The Uttar Pradesh Appropriation Bill, 2024 which provides for the appropriation from and out of Consolidated Fund of Uttar Pradesh of all moneys required to meet the grants made by the Uttar Pradesh Legislative Assembly and the expenditure Charged on the Consolidated Fund of the State in respect of the year ending on the thirty-first day of March, 2025 is introduced accordingly.

SURESH KUMAR KHANNA

Vitt Mantri.

By order,

J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.